



July 26, 2023

<b>BSE Ltd.</b> <b>Corporate Relationship Department</b> <b>1st Floor New Trading</b> <b>Rotunda Building, P J Towers</b> <b>Dalal Street Fort,</b> <b>Mumbai – 400001</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> <b>Listing Department,</b> <b>Exchange Plaza,</b> <b>Bandra Kurla Complex,</b> <b>Bandra (East),</b> <b>Mumbai- 400051</b>
<b>Scrip Code – 530517</b>	<b>Scrip Code – RELAXO</b>

**Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (vernacular), Delhi Edition on July 26, 2023 related to Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company which will be held through video conferencing or other audio visual means (OAVM) facility on August 24, 2023.

The same is for your information and records please.

Thanking You,

For **Relaxo Footwears Limited**

**Ankit Jain**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

Encl: As above

**RELAXO FOOTWEARS LIMITED**

**Registered Office:** Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,  
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700  
Fax: 46800 692 E-mail: [rfl@relaxofootwear.com](mailto:rfl@relaxofootwear.com)  
**CIN L74899DL1984PLC019097**

Classification: **Public**



[www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com)

## इंडियन बैंक Indian Bank

### इलाहाबाद ALLAHABAD

#### POSSESSION NOTICE (for immovable properties under Rule 8(1))

The Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Securitization and Enforcement of Security Interest Act, 2002, issued demand notices on the date mentioned against secured assets and stated hereunder calling upon the borrowers/mortgagees to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagees, however, failed to repay the amount notified is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagees and the public in general that the undersigned has taken the possession of the Properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers/guarantors/mortgagees in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Indian Bank (e-Allahabad Bank), for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties are given below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) for section 13 of Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/Guarantor/Mortgagee	Details of the Mortgaged Properties	Amount Due as per Possession Notice	Date of Possession
Borrower: Smt. Subhash Chand Kushwah S/o Smt. Mangal Singh and Smt. Sarita Kushwah W/o Smt. Kushwah Kushwah	All that part and parcel of land and building consisting of property at House No. 18 and 19 Part, Mathura Estate, Bhagwat Bagh, Kharsa No. 577 & 578, Muzza Bodiya, Agra, in Name of Subhash Chand Kushwah & Sarita Kushwah, Boundaries: East: 50 Ft. Wide Road, West: Other Plot, North: Part of Plot No. 19, South: 20 Ft. Wide Road.	Rs. 10,91,549/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	08.06.2023
Borrower: Smt. Gopal Prasad Bansal S/o Smt. Vinay Bansal & Smt. Vinay Bansal & Smt. Gopal Prasad Bansal	House No-151, (Ground+First+Second Floor) Nagar Nigam No. 32A/G-151 at Kameja Nagar, Hal Parwat West, Tehsil Dist. Agra, measuring 38.70 sq. mts. in Name of Smt. Gopal Prasad Bansal S/o Smt. Vinay Bansal, Boundaries: East: House No. G-143, West: House No. G-153, North: House No. G-191 & 198, South: Rasta Wide Road - Feet.	Rs. 34,75,997/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	08.06.2023
Borrower: Shri Jagdish Prasad Gupta S/o Shri Radhe Shyam Gupta	All that part and parcel of land and building consisting of property at House No. 329/1A-4A-7A, Radha Nagar, Belkhatwa, Harpanwat, Agra, measuring 28.00 sq. mts. in Name of Shri Jagdish Prasad S/o Shri Radhe Shyam Gupta, Total Area of Property is 92.34 Sq. Mt. Boundaries: East: House of Kailash Chand Agarwal, West: House of Sohan Lal, North: Others House, South: 12FT. Wide Road.	Rs. 2,56,857/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	08.06.2023
Borrower: Smt. Vimlesh W/o Ramil & Smt. Suman Devi W/o Atul Kumar & Smt. Ramil S/o Ram Charan	All that part and parcel of land and building consisting of property at House No. 315, 316 & 317, Shri Radha Kunj, Muzza Barsuall Ahr, Agra, belonging to Smt. Vimlesh W/o Ramil & Smt. Suman Devi W/o Atul Kumar, Boundaries: East: 24 Ft. Wide Road, West: Plot No. 47, North: Plot No. 45, South: Plot No. 3.	Rs. 13,66,597/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	08.06.2023
Borrower: Smt. Kafia Khan & Shri Ankur Khan	All that part and parcel of land and building consisting of property at House No-E-33, Manul Praveesham Kameja Muzza - Nagle Kati, Shamshabad Road, Agra, measuring 48.45 sq mts in Name of Shri Ankur Khan S/o Sh. Jeebh Hussain & Smt. Kafia Khan W/o Sh. Ankur Khan, Boundaries: East: Other Property, West: Rasta 6 Mtr Wide, North: House No. E-32, South: House No. E-34.	Rs. 4,65,156/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	27.10.2022
Borrower: Smt. Manoj Agrawal & Smt. Sonika Agrawal & Guarantors: Shri Rakesh Kumar	All that part and parcel of land and building consisting of property at House No. 37, Minakhal Purnam, Kameja Nagar, Agra, measuring 81.80 sq. mts. in Name of Smt. Manoj Agrawal S/o Sh. Jagannath Prasad Agrawal & Smt. Sonika Agrawal S/o Sh. Manoj Agrawal, Boundaries: East: Land of Shri Prakash Chand, West: Road 28 Ft Wide, North: Land of Shri Swayam Sunder Singhal, South: Land of Smt. Usha Puri.	Rs. 1,11,252/- as on 10/07/2023 + Interest & other expenses	31.01.2014

Date: 26.07.2023 Authorised Officer

### FORM-3 [See Regulation - 15(1)(a)] / 16(3)

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DR-T)

1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh, (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No. OA/818/2023

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 19/06

### PUNJAB NATIONAL BANK

vs.

### NISHANT KAPAH AND ORS.

To,

(i) Nishant Kapahi and Ors., Shri Nishant Kapahi Son Of Shri Somnath Kapahi (Borrower) Rio House No. 198 FF, Ashoka Enclave Part-I Sector-7, Faridabad, Haryana. Also at B-108, Basement Ashoka Enclave Part-I, Sector-37, Faridabad-121003 Haryana Also at-A-45, Ashoka Enclave Sector 37 Faridabad 121003 Haryana, Faridabad, Haryana. Also at A 45 Ashok Enclave, Sector-37, Faridabad Faridabad, Haryana

**SUMMONS**

WHEREAS, OA/818/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 26-06-2023;

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 34,72,830/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of this business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 25/09/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 07/07/2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

### FORM-3 [See Regulation - 15(1)(a)] / 16(3)

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DR-T)

1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh, (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No. OA/773/2023

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 49/22

### PUNJAB NATIONAL BANK

vs.

### ANUP KUMAR SINGH

To,

(3) Sh. Manoj Kumar, S/o of Amar Singh, H.No. DN 683 OLD CIA Gali Shekhpura, South Delhi, Delhi

**SUMMONS**

WHEREAS, OA/773/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 01-07-2023;

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 29,21,393/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 25/09/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 15/07/2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

### RELAXO

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-46800601, 46800700, Fax No: 91-11-46800692. E-mail: [relaxo@relaxofootwear.com](mailto:relaxo@relaxofootwear.com), Website: [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com) CIN No: L74999DL1984PLC19097

#### NOTICE OF THE 39<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

Members are requested to note that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, 24<sup>th</sup> day of August, 2023 at 03:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the notice of the AGM dated July 24, 2023 in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made thereunder, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/MICR/P/2019/79 dated May 12, 2020 read with SEBI/HO/CFD/PoP-2/P/ICR/2023/4 dated January 5, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the 39<sup>th</sup> AGM along with Annual Report for the Financial Year 2022-23 shall be sent through electronic mode only at the registered e-mail ID (registered with the Company Depositories) of the members of the Company and other persons so entitled. These documents shall also be available at the website of the Company [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com) and Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, also at the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company viz. at KFin Technologies Limited at <https://www.kfin.com>.

The Company has engaged KFin Technologies Limited, RTA of the Company to provide the facility to members to attend the AGM through electronic platform. Members may access the same at <https://members.kfin.com>.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the resolutions for consideration at the 39<sup>th</sup> AGM will be transacted through e-voting under the AGM. Accordingly, the Company has engaged KFin Technologies Limited to provide its services to Members for exercising their vote through e-voting or e-voting at the AGM i.e. IndiaPoll. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Member holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through e-voting, will be provided as part of the Notice of the 39<sup>th</sup> AGM. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The proceeding of the AGM will be deemed to be conducted at the Registered office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting will be able to vote at the AGM.

Members are requested to register/update their e-mail addresses/ bank account details in the following manner on or before August 17, 2023.

**In case of Physical Holding** Members are requested to register/update their email addresses at the earliest by clicking the link: <https://irs.kfin.com/client/services/default.aspx> or by submitting physical copy of Form ISR-1 to the RTA along with relevant documents at the mentioned address at KFin Technologies Limited, Unit: Relaxo Footwear Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanarokurga, Hyderabad - 500032, India or by sending email to [enward@kfin.com](mailto:enward@kfin.com).

**In case of Demat Holding** Please contact your Depository Participant ("DP") and update your email addresses and Bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 10, 2023 has recommended a final dividend of Rs. 2.50 per share. The dividend is subject to the approval of the Members at the ensuing AGM and will be paid within 30 days from the date of AGM to the Members, whose names appear in the Register of Members as on the cut-off date i.e. August 17, 2023 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to the registered addresses depending on availability of postal services. To avoid delay in receiving dividend, Members are requested to update their complete bank account details as mentioned above, within the due time line.

Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020 mandates that dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source ("TDS") at the time of making payment of Dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, the Members are requested to submit the tax exemption form by August 17, 2023 at the following link of RTA: <https://irs.kfin.com/form15d>.

The Members may contact Mr. Sankara Gokavaram, Senior Manager - Corporate Registry, Unit: Relaxo Footwear Limited, KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanarokurga, Hyderabad - 500 032 or [enward@kfin.com](mailto:enward@kfin.com) or contact toll free No. 1800-3094-001 for any further clarifications. The Members of the Company can also contact Mr. Ankit Jain, Company Secretary, Relaxo Footwear Limited, Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, contact No: 011-4680060 and may write an e-mail to [cs@relaxofootwear.com](mailto:cs@relaxofootwear.com).

By order of the Board  
For Relaxo Footwear Limited  
Sd/-  
Ankit Jain  
Company Secretary

### POSSESSION NOTICE

#### EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

Whereas, the Authorized Officer of the Secured Creditor mentioned herein, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act, as mentioned below calling upon the borrowers) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Assignor mentioned hereinbelow has assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of various trusts mentioned hereunder (hereinafter referred to as "EARC"). Pursuant to the assignment under Section 5 of the SARFAESI Act, 2002, EARC has taken possession of the mortgaged property (s) described herein below in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the respective date mentioned against each Loan Account/Mortgaged Property.

Name of Assignor	Name of Loan Account	Borrower Name & Co-Borrower Name	Date of Demand Notice & Amount	Date of Possession	Possession Status
Dewan Housing Finance (India) Ltd. (DHFL)	EARC - Unit SC - 371	Inder Pal Singh (Borrower) alongwith Manmeet Kaur, Jasveen Kaur and Prabh Dayal Singh (Co-borrowers)	01.08.2022 & Rs.6,71,69,911.90/- (Rupees Six Crore Seventy-one Lakh Sixty-Nine Thousand Five Hundred Eleven and Ninety paise Only)	24-07-2023	PHYSICAL

**DESCRIPTION OF THE PROPERTY:** All that Part and Parcel of the Building Property Allotment Scheme of Structure Whatever Controlled On First Floor And Second Floor Alongwith With Its Roof Right Up To Last Story, (That The Strataeas And Passage Shall Be Common With Other) But On Western Port Of Property No. D-3-116 (Measuring Area: 66.66 Sq. Yds. 10' X 60') Situated In The Abad Of Block-D, Kristiana Nagar, In The Area Of Village Ghondoli, Delhi - 110015 Bounded On The North By: Road; South By: Service Lane; East: Portion Of The Property No. D-3-116, West By: Property No. D-3-115.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited for the amount mentioned below along with interest thereon.

Place: Delhi  
Date: 26/07/2023  
Sd/- Authorized Officer  
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any notice or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### pnb Housing Finance Limited

Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Building, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001. Phone: 011-23374174, 23374172, 23205414. Website: [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com)

BRANCH OFFICE: OFFICE NO - 2 & 3, Ground Floor, Baba House, Plot No. 86, B.L.Jajji Road, Near WEST METRO Station, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel: 022-26110000

**NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF CHAPTER III OF SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002, READ WITH RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AMENDED AS ON DATE**

We, the PNB Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "PNBHFL") had issued Demand Notice No. 13(2) of Chapter III of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") by our "MUMBAI" Branch office situated at Office No - 2 & 3, Ground Floor, Baba House, Plot No. 86, B.L.Jajji Road, Near WEST METRO Station, Andheri (East), Mumbai - 400093. The said Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to you all below mentioned Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors since your account has been classified as Non-Performing Assets as per the Reserve Bank of India/National Housing Bank guidelines due to nonpayment of instalments/termly. The contents of the same are the default committed by you in the payment of instalments of principals, interest, etc. The outstanding amount is mentioned below. Further, with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice and hence this publication of Demand Notice which is also required under 13(2) of the said Act. You are hereby called upon to pay PNBHFL, within a period of 60 Days of the date of publication of the demand notice the aforesaid amount along with up-to-date interest and charges, failing which PNBHFL will take necessary action under all or any of the provisions of Section 13 of the said Act, against all or any of the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and guarantors.

Your kind attention is invited to sub-section (8) of Section 13 of the Act of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under which you can tender/pay the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the PNBHFL, only till the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction; by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the PNBHFL is not tendered before publication of the notice for sale of the secured assets by public auction, you are prohibited under 13(13) of the said Act, against all or any of the secured assets including taking possession of the secured assets thereafter. FURTHER you are prohibited under 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale, lease or in any other way the aforesaid secured assets.

Sr No	Loan Account Number	Name & Address of Borrower & Co-borrower	Name & Address of Guarantor	Property No.	Date of Demand Notice	Amount Due as on Date Demand Notice
1	PNBHFL/05417/37410	Borrower- Ajay Suresh Singh- Address: 15, Shaad Vihar, Delhi, India, 110026, 457, 04, Ram Nagar Market, Gandhi Nagar, Delhi, India, 110030.	MIA	Flat No. 101, Building No. 1, Nagoni Chd, Juhu Park, Juhu Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400049.	14.06.2023	1,84,62,583.66
		Co-Borrower- Ramrati Jagdish Private Limited- 457, 04, Ram Nagar Market, Gandhi Nagar, Delhi, India, 110030/401, 4th Fl. II, Nagoni Chd, Juhu Park, Juhu Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400049.		View Parle - 101, Nagoni Chd, Juhu Park, Juhu Road, Mumbai, Maharashtra, 401478		
		Co-Borrower- Mr./Ms. Savitri Devi Singh- Address- 401, 4th Fl. II, Nagoni Chd, Kings Hotel Juhu Church, Juhu Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400049				
		Co-Borrower- Mr./Ms. Suresh Chandra Singh- 401, 4th Fl. II, Nagoni Chd, Kings Hotel Juhu Church, Juhu Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400049				

Place: MUMBAI, Date: 25.07.2023  
Sd/- Authorized Officer, PNB Housing Finance Limited

### TAMIL NADU INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

3<sup>rd</sup> floor, CMDA Building Tower, Thalambuthu-Natarajan Maalgal, No. 1, Gandhi Irwin Road, Egmore, Chennai - 600 008  
Phone: 044-28594366/2859155/255355/455; E-mail: [soinfaa.fndp@tgn.gov.in](mailto:soinfaa.fndp@tgn.gov.in)  
Website: [www.tnidb.tn.gov.in](http://www.tnidb.tn.gov.in)

#### REQUEST FOR QUALIFICATION

##### Empanelment of Consultancy Firms for various Sectors/ Sub Sectors/ Functional Areas

- The Chief Executive Officer, Tamil Nadu Infrastructure Development Board invites proposal from Consultancy Firms for Empanelment across various Sectors/ Sub Sectors/ Functional Areas.
- Request for Qualification (RfQ) may be downloaded from the websites <https://tenders.gov.in/nicgpe/app> and <https://tnidb.tn.gov.in/en/>. The tender fee (non-refundable) of Rs.20,000/- is to be paid through e-procurement portal.
- A virtual pre-proposal conference for the prospective applicants is scheduled on 08.08.2023 at 11:00 a.m.
- Proposals complete in all respect must be submitted online through the e-procurement process as specified in the RfQ on or before 3.00 p.m on 05.09.2023.
- All other details are available in the Request for Qualification (RfQ).

DIPR: 856 / DISPLAY/2023

Chief Executive Officer, TNIDB

### RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.

(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

Registered Office: Office No.36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302023  
CIN: L27109RJ2009PLC030511 | P: +91 141 2235760-61  
E: [rammingmass@gmail.com](mailto:rammingmass@gmail.com) | W: [www.rammingmass.com](http://www.rammingmass.com)

### Statement of Consolidated Un-Audited Financial Result for the Quarter Ended 30th June, 2023

(Rs. In Lacs except per share data)

S. No.	Particulars	Consolidated	
		Quarter Ended	Year Ended
		30.06.2023	31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	3011.88	3447.97
2.	Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#	767.14	950.32
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	767.14	950.32
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	573.93	711.88
5.	Total Comprehensive Income for the period	573.93	715.22
6.	Equity Share Capital (Face value per share Rs. 10/-)	1147.63	1147.63
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) Basic as well as Diluted	5.00	6.20
9.	Revenue from operations	3031.64	3473.75
10.	Profit Before Tax	794.53	970.59
11.	Profit After Tax	595.11	723.89
12.	Total Comprehensive Income for the period	595.11	725.23

Note:

- The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 24th July, 2023
- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). The same is also available on the Company website viz. [www.rammingmass.com](http://www.rammingmass.com).
- # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.
- The Figures for the corresponding previous period have been restated/regrouped wherever necessary to make them comparable.

Date: 24th July, 2023

By Order of the Board  
For Raghav Productivity Enhancers Limited  
Sd/-  
Rajesh Kabra  
(Managing Director)  
DIN: 00935200

### UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED

Registered Office: Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, Corporate Office - Centrum House, Vidyaranjan Marg, East, Santacruz (E), Mumbai - 400 098

#### DEMAND NOTICE U/S 13 (2) UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules")

The undersigned being the Authorized Officer of Unity Small Finance Bank Limited ("Bank") under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act, issued Demand Notice (s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. As some of the notice(s) are not served as per postal remarks, hence said notice(s) are being served upon the Borrower(s) by way of alternative mode of service i.e. through publication in News Papers.

Sl.No.	Loan Account Details	Secured Assets
1	Borrower(s) Name: 1) VINAY KUMAR SINGH Agreement Date: 29/11/2021 Loan Account No: -CFSLDELLOAN00000510234 Loan Amount: Rs. 9,20,000/-, NPA Date: 02/06/2023. Demand Notice Date: 12/07/2023 (Sent on 13/07/2023) Demand Notice Amount: Rs. 9,27,046.20p (as on 11/07/2023) and interest & other charges	ALL THAT PIECE AND PART OF IMMOVABLE PROPERTY BEARING RESIDENTIAL PLOT AREA MEASURING 50 SQ. YARDS I.E. 41.805 SQ. MTRS., OUT OF KHARSA NO. 314, SITUATED AT VILLAGE GHAZIABAD, DISTRICT PARGANAS, DIST. GHAZIABAD, BOUNDARIES (AS PER SALE DEED), NORTH - OTHER PLOT, SOUTH - 150' WIDE RASTA, EAST - OTHER PLOT, WEST - 80' WIDE RASTA

In case of failure to repay the aforesaid dues within a period of 60 (sixty) days, the undersigned shall be constrained to enforce the above Secured Assets under the provisions of the Act. Please note that as per section 13(13) of the Act, you are restrained from dealing with or transferring any of the secured assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under the Act.

Date: 26/07/2023, Place: Ghaziabad, Uttar Pradesh (Authorized Officer) Unity Small Finance Bank Limited

### THE BUSINESS DAILY.

FOR SMALL BUSINESS.

financial express

financialpress.com

